



केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन  
मुख्यालय कार्यालय, इलाहाबाद  
जनसम्पर्क विभाग

सं. :

कोर/जी/पी.आर./010 भाग-XX

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 14.09.2019

सदस्य कर्षण, रेलवे बोर्ड, का कोर, इलाहाबाद, में दौरा

श्री राजेश तिवारी, सदस्य कर्षण, रेलवे बोर्ड, एवं पदेन सचिव, भारत सरकार, ने आज दिनांक 14.09.2019 को महाप्रबन्धक कार्यालय, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद का दौरा किया और कोर अधिकारियों एवं रेल विद्युतीकरण के परियोजना निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /कोर श्री आलोक गुप्ता, ने सदस्य कर्षण का स्वागत किया एवं सदस्य कर्षण के दिशा निर्देश में निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने का आश्वासन दिया।

सदस्य कर्षण ने बैठक के दौरान वर्तमान वित्तीय वर्ष में हो रहे विद्युतीकरण कार्यों की समीक्षा की और कार्य की प्रगति को तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए 6234 रूट किलोमीटर के विद्युतीकरण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परियोजना निदेशकों और कोर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया तथा उन्होंने बताया कि विद्युत कर्षण की अनुरक्षण व परिचालन लागत डीजल कर्षण की अनुरक्षण व परिचालन लागत से काफी कम है, तथा विद्युत कर्षण द्वारा पूरी तरह परिचालन से सालाना 15000 करोड़ रुपये की बचत होगी। सरकार द्वारा हाल के वर्षों में रेल विद्युतीकरण पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है और 2021-22 तक पूरे ब्राड गेज रूट के विद्युतीकरण की योजना है। उन्होंने सभी को टीम वर्क भावना के तहत पूरी लगन से लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्देश दिया।

सदस्य कर्षण ने रेल विद्युतीकरण पर आधारित एक हैंडबुक का विमोचन किया जिसमें परियोजनाओं से संबन्धित जानकारी के साथ साथ रेल विद्युतीकरण के कार्य को त्वरित गति से कार्य करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगी।

कोर प्रांगण में आगमन के साथ ही बैठक से पहले सदस्य कर्षण ने वृक्षारोपण किया।

इस अवसर पर सभी विभागों के विभागाध्यक्ष तथा सभी परियोजनाओं के मुख्य परियोजना निदेशक और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

(एस.के.मिश्रा)

मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी  
कोर/इलाहाबाद